

B.Com. I year

COURSE STRUCTURE AND SCHEME OF EXAMINATION

GROUP	PAPER		THEORY		INTERNAL
			Maximum	Minimum	
Accounting	I	Financial Accounting	40	13	10
	II	Business Mathematics	40	13	10
Management	I	Business Law	40	13	10
	II	Business Organisation and Communication	40	13	10
Applied Economics	I	Micro Economics	40	13	10
	II	Macro Economics	40	13	10
Tax Procedure and Practice	I	Direct Tax System: Income Tax	40	13	10
	II	Goods and Services Tax	40	13	10
	Practical	Tax Practical	50	17	-

St. Aloysius' (Autonomous) College, Jabalpur (M.P.)

संत अलायसियस महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर (म.प्र.)

B.Com. I Year बी. कॉम. प्रथम वर्ष		
Title of the Subject Group विषय समूह का शीर्षक	Accounting लेखांकन	
Paper/ प्रश्न पत्र	I	
Title of the Paper प्रश्न पत्र का शीर्षक	Financial Accounting वित्तीय लेखांकन	
Max. Marks अधिकतम अंक	Theory सैद्धांतिक	Internal Assessment आंतरिक मूल्यांकन
50	40	10

Course Outcome- To acquire knowledge and understanding of the principle and concepts of financial accounting and develop the skill required for the preparation of financial statement and accounts of various business area.

Unit - 1	Concept of Double Entry System, Accounting Concepts and Conventions Preparation of Journals, Sub division of Journal, Preparation of Ledger and Trial Balance. Final Accounts with Adjustments, Revenue Recognition
ईकाई -1	द्वि-प्रविष्टि प्रणाली की अवधारणा, लेखांकन की अवधारणाएं एवं परम्पराएं, जर्नल तैयार करना, जर्नल का उपविभाजन, खाताबही एवं तलपट का निर्माण, अंतिम खाते समायोजन सहित, राजस्व मान्यता।
Unit -2	Introduction to Indian Accounting Standards. Detail study of accounting standard - 6 and 10, Branch Accounts, Departmental Account, Accounting for Depreciation.
ईकाई -2	भारतीय लेखा मानकों का परिचय, लेखा मानक 6 एवं 10 का विस्तृत अध्ययन, शाखा लेखे, विभागीय लेखे, मूल्य ह्रास के लिये लेखांकन।
Unit -3	Royalty Accounts, Accounting of Non Profit Making Organization, Research: development Coasts, long term construction contracts.
ईकाई-3	अधिकार शुल्क खाते, गैर लाभकारी संस्थाओं के खाते, शोध एवं विकास लागत, दीर्घकालीन निर्माण ठेका।
Unit -4	Joint Venture Accounts , Consignment and Investment Account, Foreign Exchange Transactions, Investments, Government grants (A Brief Study)
ईकाई-4	संयुक्त उपक्रम खाते, प्रेषण खाते एवं विनियोग खाते, विदेशी विनियम व्यवहार, विनियोग, शासकीय अनुदान (संक्षिप्त अध्ययन)।
Unit -5	Partnership Accounts- Dissolution with Insolvency of Partner, Amalgamation of Partnership Firms, Conversion of Partnership Firm into Joint Stock Company.
ईकाई-5	साझेदारी खाते, साझेदार के दिवालिया से संबंधित विघटन, साझेदारी फर्मों का एकीकरण, साझेदारी फर्म का संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल में परिवर्तन।

Gupta R.L. and Radhaswamy M	Financial Accounting, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
Monga, L.R.Ahuja, Girish and Sehgal Ashok	Accounting, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
Khatri	Financial Accounting-MC Graw Hill
Bhattacharya	Ess. of Financial Accounting-PHI
Shukla M.C. Grewal T.S. and Gupta S.C.	Advanced Accounting Sultan Chand and Sons, New Delhi.
Shukla M.C.	Financial Accounting, SahityaBhawan, Pub. Agra
Dr.P.K.Jain	Financial Accounting

[Signature]

[Signature]
19/01/19

[Signature]

[Signature]

St. Aloysius' (Autonomous) College, Jabalpur (M.P.)
 संत अलायसियस महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर (म.प्र.)

B.Com. I Year बी. कॉम. प्रथम वर्ष		
Title of the Subject Group विषय समूह का शीर्षक	Accounting लेखांकन	
Paper/ प्रश्न पत्र	II	
Title of the Paper प्रश्न पत्र का शीर्षक	Business Mathematics व्यवसायिक गणित	
Max. Marks अधिकतम अंक	Theory सैद्धांतिक	Internal Assessment आंतरिक मूल्यांकन
50	40	10

Course Outcome: To familiarize students with the knowledge of fundamental mathematical tools like Ratio, Percentage, Commission, Profit and Loss, Interest, Average and its application in the Business and Commerce.

UNIT-I	Ratio- Gaining and Sacrificing Ratio, Proportion, Percentage, Commission, Discount and Brokerage.
ईकाई- 1	अनुपात- प्राप्ति व त्याग अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, कमीशन , बट्टा एवं दलाली
UNIT-II	Simultaneous Equations: Meaning, Characteristics, Types and Calculations preparation of Invoice.
ईकाई-2	युगपत समीकरण: अर्थ, लक्षण, प्रकार और गणना , बीजक का निर्माण.
UNIT-III	Elementary Matrices- Definition and Calculation, Types of Matrices.
ईकाई-3	प्रारंभिक आव्यूह - परिभाषा एवं गणनाएं , आव्यूह के प्रकार.
UNIT-IV	Logarithms and Antilogarithms- Principles and Calculations. Simple and Compound Interest.
ईकाई-4	लघुगणक एवं प्रति लघुगणक- सिद्धांत एवं गणनाएं . साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज.
UNIT-V	Average- Simple, Weighted and statistical Averages. Arithmetic Mean, Harmonic Mean, Geometric Mean, Profit & Loss.
ईकाई-5	औसत - सामान्य , भारित एवं सांख्यिकीय औसत, अंकगणितीय माध्य , हरात्मक माध्य , ज्यामितीय माध्य , लाभ एवं हानि .

[Signature]

[Signature]
 19/01/19
 (Dr. V. Mehta)

[Signature]

[Signature]

Suggested Readings:

S. M. Shukla	Business Mathematics, Prentice Hall of India, New Delhi
Padmalochan Hazarika	Business Mathematics S. Chand & Company, New Delhi
Qazi Zameeruddin	Business Maths Vikas publishing house, New Delhi
Dr. B. N. Gupta & Dr. V. K. Sharma	Business Mathematics Sahitya Bhawan Publishing house, Agra
Soni, R. S.	Business Mathematics with Application in Business & Economics, Pitambar Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi
TrivediKashyap, TrivediChirag	Business Mathematics, Dorling Kindersley (India), Pvt. Ltd
Holden Keneeth, Pearson bA. W.	Introductory Mathematics for Economics and Business, Palgrave Macmillan Limited

St. Aloysius' College (Autonomous), Jabalpur, M.P.

संत अलायसियस महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर (म.प्र.)

Class/कक्षा	B.Com /बी.कॉम.
Year/सत्र	First / प्रथम
Subject/विषय	Management प्रबंध
Paper/ प्रश्न पत्र	I
Title of the paper/प्रश्न पत्र काशीर्षक	Business Law/व्यावसायिक सन्नियम
Compulsory / अनिवार्यOptional / वैकल्पिक	Compulsory / अनिवार्य
Maximum Marks: 40	अधिकतमअंक :40

Course Outcome-On completion of the course, students will be able to understand elements of contract, Importance of Business Ethics thereby acquiring an understanding of legal aspects of the law affecting businesses.

Unit-1	Indian Contract Act 1872- Definitions, Nature of Contract, Offer &Acceptance Capacity of Parties to Contract, Free Consent and Consideration, Expressly declared void agreement, Performance of contracts.
इकाई-1	भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872- परिभाषाएं, अनुबंध की प्रकृति, प्रस्ताव एवं स्वीकृति, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, स्वतंत्र सहमति एवं प्रतिफल, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, अनुबंधों का निष्पादन
Unit-2	Breach of Contract, Remedies for breach of Contract, Indemnity and Guarantee Contracts. Special Contracts- Bailment, Pledge and Agency.
इकाई-2	अनुबंध भंग, अनुबंध भंग के उपचार, हनिरक्षा एवं प्रतिभूति अनुबंध, विशेष अनुबंध, निक्षेप, गिरवी एवं एजेंसी.
Unit-3	Negotiable Instrument Act, 1881- Definition, Features, Promissory note, Bill of Exchange and Cheques. Crossing of Cheque, Types of Crossing, Dishonor and Discharge of Negotiable Instruments. LLP- Introduction, Incorporation Process.
इकाई-3	विनिमयसाध्य लेखपत्र अधिनियम 1881- परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र तथा धनादेश, चैक का रेखांकन, रेखांकन के प्रकार, विनिमय विपत्र का अनादरण एवं निष्पादन. सीमित दायित्व साझेदारी - परिचय, सममेलन प्रक्रिया
Unit-4	Consumer Protection Act 1986- Main Provision, Consumer Disputes, Consumer Disputes Redressal Agencies, Competition Act 2002- Introduction, Features, Duties and Authorities of CCI
इकाई-4	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986- प्रमुख प्रावधान, उपभोक्ता विवाद, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण संस्थान, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002- परिचय, लक्षण, सी.सी. आई. के कर्तव्य एवं अधिकार.
Unit-5	Foreign Exchange Management Act 2000 (FEMA) - Objective and Main Provisions, Introduction to Intellectual Property Right Act- Copyright, Patent and Trademark.
इकाई-5	विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 2000(फेमा)- उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधान, बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम का परिचय - कॉपीराइट, पेटेंट एवं ट्रेडमार्क।

Suggested Reading:

Singh Avtar	Estern Book Company Law.
Kuchal M. C.	Vikas Publishing House, New Delhi.
Bulchandani K.R.	HimalyaPublising House, Mumbai. (Both Medium)
नौलखाआर.एल.	आरबीडीपब्लिशिंगहाउस, जयपुर
R.N.S. Pillai& V. Bhagvati	S. Chand. & Company New Delhi

Signature

Signature

Signature

Signature

St. Aloysius' College (Autonomous), Jabalpur, M.P.
संत अलायसियस महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर (म.प्र.)

Class/ कक्षा	B.Com / बी.कॉम.
Year/ सत्र	First / प्रथम
Subject/ विषय	Management प्रबंध
Paper/ प्रश्न पत्र	II
Title of the paper/ प्रश्न पत्र का शीर्षक	Business Organisation & Communication/ व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण
Compulsory / अनिवार्य Optional / वैकल्पिक	Compulsory / अनिवार्य
Maximum Marks: 40	अधिकतम अंक : 40

Course Outcome: To acquaint and develop understanding of the forms of Business organization. To familiarise students with modern means of business communication and its application in business.

Unit 1 इकाई-1	Business Organization: Definition, Concept, Characteristics, Objectives, Significance, Components, Functions. Business ethics, Social responsibilities of Business, Promotions of Business: Meaning, Functions, Stages of Promotion. Forms of Business Organization: Detailed Study of Sole Proprietorship and Partnership. व्यावसायिक संगठन : परिभाषा, अवधारणा, विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, घटक एवं कार्य, व्यवसाय में नैतिक मूल्य, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। व्यवसाय का प्रवर्तन : अर्थ, कार्य, प्रवर्तन की अवस्थाएं। व्यवसाय संगठन के प्रकार : एकाकी स्वामित्व एवं साझेदारी का विस्तृत अध्ययन।
Unit -2 इकाई-2	Company Organisation: Meaning, Definition, Formation of Private and Public Company, Merits and Demerits, Types of Companies, Cooperative Organisation-Need, Meaning, Significance and its Merits- Demerits. Public Enterprises- Concept, Meaning, Characteristic, Objectives and Significance. Multi-National Corporations.(MNC'S) - An Introduction In India. कम्पनी का संगठन : अर्थ, परिभाषा, निजी एवं सार्वजनिक कम्पनी का निर्माण, गुण, दोष, कम्पनी के प्रकार। सहकारी संगठन-आवश्यकता, अर्थ, महत्व एवं इसके गुण दोष। सार्वजनिक उपक्रम-अवधारणा, अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य एवं महत्व। भारत में बहुराष्ट्रीय निगम- एक परिचय।
Unit -3 इकाई-3	Communication- Introductions, Definition, Nature, Objects, Importance of Communication to Manager, Elements of Communication, Feedback, Dimension and Directions of Communication, Means of communication - Verbal Communication, SWOT Analysis. संप्रेषण-परिचय, परिभाषा, प्रकृति उद्देश्य, प्रबंधको के लिए संप्रेषण का महत्व, संप्रेषण के तत्व, प्रतिपुष्टि। संप्रेषण के आयाम और दिशाएं, संप्रेषण के माध्यम - शाब्दिक संप्रेषण, स्वीट विश्लेषण।
Unit- 4 इकाई-4	Non-Verbal communication, Body Language, Paralanguage, Sign Language, visual and Audio Communication, Chain of communication Barriers in Communications. Written Business Communication - Concept, Advantages, Disadvantages, Importance. Need and kinds of business Letters, Essentials of an Effective Business Letter शाब्दिक संप्रेषण, दैहिक भाषा, पार्श्वभाषा, संकेत भाषा, संप्रेषण दृश्य एवं श्रव्य संप्रेषण, संप्रेषण की श्रृंखलाएं, संप्रेषण की बाधाएं। लिखित व्यावसायिक संप्रेषण-अवधारणा, लाभ, हानियां, महत्व। व्यावसायिक पत्रों की आवश्यकता एवं प्रकार, प्रभावी व्यावसायिक पत्र की विशेषताएं।

Handwritten signature

Handwritten signature
(Dr. V. Mehta)

Handwritten signature

Handwritten signature

Unit – 5	Modern Forms of Communication- Fax, E-mail, Video conferencing, International Communication for Global Business, Group Communication Network. Preparation of Business Survey Reports.
इकाई-5	संप्रेषण के आधुनिक स्वरूप –फैक्स, ई-मेल, दृश्य परिचर्चा। भूमण्डलीय व्यवसाय के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संप्रेषण, समूह संप्रेषण नेटवर्क व्यावसायिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना ।

Recommended Books

Dr. Ramesh Mangal (English)	Business Commutations, Universal Pub. Agra
Jain K.	Himalaya Publishing House, Mumbai
Shashi K. Gupta	Kalyani Publishing, New Delhi
Nolkha R.C.	RBD Publishing House, Jaipur
डॉ. विनोद मिश्रा	साहित्य भवन, आगरा
डॉ. सुरेश चन्द्र जैन	व्यावसायिक संगठन
डॉ. अरुण पाठक, डॉ. मेहता	व्यावसायिक संगठन


 19/01/19
 (Dr. V. Mehta)

St. Aloysius' College (Autonomous), Jabalpur, M.P.

संत अलायसियस महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर (म.प्र.)

Class/कक्षा	B.Com /बी.कॉम.
Year/सत्र	First / प्रथम
Subject/विषय	Applied Economics /व्यावहारिक अर्थशास्त्र
Paper/ प्रश्न पत्र	I
Title of the paper/प्रश्न पत्र का शीर्षक	Micro Economics /व्यष्टि अर्थशास्त्र
Compulsory/ अनिवार्य Optional /वैकल्पिक	Optional /वैकल्पिक
Maximum Marks: 40	अधिकतम अंक : 40

Course Outcome-The course explains the way in which various decision making units in the economy (individuals and firms) make their consumption and production decisions. It will familiarise the learners with laws of demand and supply various types of markets.

Unit-1	Micro economics-Definition, meaning Inductive and Deductive methods, Importance and Limitations of Micro Economics.
इकाई-1	व्यष्टि अर्थशास्त्र –परिभाषा, अर्थ, आगमन एवं निगमन पद्धतियां, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व एवं सीमाएं।
Unit -2	Law of Demand- Meaning and Definition, Characteristics, Types of demand, Exceptions of Law of Demand.
इकाई-2	मांग का नियम-अर्थ एवं परिभाषाएं, विशेषताएं, मांग के प्रकार, मांग के नियम के निर्धारक तत्व, मांग के नियम के अपवाद।
Unit -3	Elasticity of Demand- Concept, Definition, Importance, Types and measurement of Elasticity of Demand. Production Function (with One and Two Variables), Economies - Internal and External.
इकाई-3	लोच-अवधारणा, परिभाषा, महत्व, मांग की लोच के प्रकार एवं माप उत्पादन फलन (एक एवं दो चरों के साथ) बचतें-आंतरिक एवं बाह्य
Unit-4	Factors of Production-Land, Labour, Capital, Organization and Enterprise. Cost and Revenue Analysis.
इकाई-4	उत्पादन के घटक-भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवंसाहस। लागत एवं आगम विश्लेषण।
Unit-5	Market Structure - Concept, Definition, Characteristics, Classification, and Price determination under Perfect and Imperfect competition. Marginal Productivity Theory of Distribution.
इकाई-5	बजार संरचना-अवधारणा, परिभाषाएं, विशेषताएं, वर्गीकरण, पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता के अर्न्तगत मूल्य निर्धारण। वितरण का सीमान्त उत्पादकता सिद्धांत।

[Signature]

[Signature]
13/01/19
(Dr. V. Mehta)

[Signature]
[Signature]

Suggested Reading:

Modern Micro economics	Koustsohjarjiji A. Macmillan New Delhi.
डॉ. जिनेन्द्र कुमार जैन	म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
मिश्रा एवं पुरी	हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।
पी. एम. चोपडा	कल्याणी पब्लिशर नई दिल्ली।
बी.एल. ओझा	आरबीडी पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
D. N. Dwivedi	Vikas Publising House New Delhi

St. Aloysius' College (Autonomous), Jabalpur, M.P.
संत अलायसियस महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर (म.प्र.)

Class/कक्षा	B.Com /बी.कॉम.
Year/सत्र	First/ प्रथम
Subject/विषय	Applied Economics /व्यावहारिक अर्थशास्त्र
Paper/ प्रश्न पत्र	II
Title of the paper/प्रश्न पत्र का शीर्षक	Macro Economics /समष्टि अर्थशास्त्र
Compulsory/अनिवार्य Optional/ वैकल्पिक	Optional/ वैकल्पिक
Maximum Marks : 40	अधिकतम अंक :40

Course Outcome- The course enables the students to understand the basics of national income accounting and its calculation, employment, wages, rent and interest concepts and theories. Students will also learn to apply basic knowledge of monetary theories to global pricing issues. Student gains the understanding of current economic policies

Unit 1- इकाई-1	Macro Economics- Concept, Nature, Importance, Limitations, Difference Between Micro and Macro Economics समष्टि अर्थशास्त्र -अवधारणा, प्रकृति महत्व, सीमाएं, व्यक्ति एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर।
Unit 2- इकाई-2	National Income- Meaning, Definition and Concept, Methods for Measuring National Income in India and its Problems. राष्ट्रीय आय-अर्थ, परिभाषा एवं अवधारणा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ एवं इसकी समस्याएं।
Unit 3- इकाई-3	Theories of Wages, Interest and Employment मजदूरी, ब्याज एवं रोजगार के सिद्धांत
Unit 4- इकाई-4	Monetary Theories- Quantity theory of Money, Modern theory of Money, Keynes's theory of Money and Price. मौद्रिक सिद्धांत-मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, मुद्रा का आधुनिक सिद्धांत। कीन्स का मुद्रा एवं कीमतों का सिद्धांत।
Unit 5- इकाई-5	Recent Industrial Policy, Industrial Growth in Phase II & III, Disinvestment, Foreign Direct Investment. नवीनतम औद्योगिक नीति, द्वितीय एवं तृतीय चरण की औद्योगिक

Suggested Readings:

मिश्रा एवं पुरी	हिमालय पब्लिशिंग हाउस , मुम्बई।
बी. एल. ओझा	आरबीडी पब्लिशिंग हाउस , नई दिल्ली (जयपुर)
पी. एन. चोपड़ा	कल्याणी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
M.C, Bais	Vikash Publishing House, New Delhi

[Signature]

[Signature]
19/01/19
(Dr. V. Mehta)

[Signature]

[Signature]

St. Aloysius College (Autonomous) Jabalpur
संत अलायसिस महाविद्यालय (स्वशासी) जबलपुर

Class/कक्षा	B.Com./बी.कॉम
Year /वर्ष	प्रथम वर्ष /First Year 2019-20
Subject/विषय	कर प्रक्रिया एवं व्यवहार (Tax Procedure & Practice)
Paper/प्रश्नपत्र	Paper I
Title of paper/प्रश्नपत्र एवं शीर्षक	Direct Tax System: Income Tax प्रत्यक्ष कर व्यवस्था: आयकर
Compulsory/अनिवार्य Optional/ वैकल्पिक	Optional/ वैकल्पिक
Max. Marks: अधिकतम अंक : 40	Theory/ सैद्धान्तिक: 40

इकाई I-	कर व्यवस्था – कर का अर्थ, विशेषताएँ एवं उद्देश्य। भारतीय अर्थव्यवस्था में करों की भूमिका। भारत में प्रत्यक्ष कर – केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय निकायों के प्रत्यक्ष करों का सामान्य परिचय।
Unit I-	Tax System: - Meaning of Tax, Features and Objectives. Role of taxes in Indian Economy Direct Taxes in India – General Introduction of Central, Provincial and Local Direct Taxes
इकाई II-	आयकर की विशेषताएँ एवं मुख्य बातें। आयकर का राजस्व में योगदान। प्रमुख परिभाषाएँ – गतवर्ष, कर निर्धारण वर्ष, सकल कुल आय, कुल आय, व्यक्ति, कृषि आय। निवास स्थान एवं कर दायित्व। करमुक्त आयें।
Unit II-	Characteristics and main features of Income Tax. Contribution of Income Tax in public revenue. Important definitions, Previous year, Assessment Year, Gross Total Income, Total Income, Person, Agricultural Income. Residential Status and Tax Liability. Exempted Income.
इकाई III-	वेतनभोगी व्यक्तियों की कर योग्य आय की गणना। सेवा निवृत्ति की दशा में करमुक्त मर्दे एवं करयोग्य आय की गणना।
Unit III-	Computation of taxable Income of salaried persons. Exempted items and computation of taxable income in case of retirement.
इकाई IV-	मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय की गणना। व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना। छोटे व्यापारियों, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टर्स एवं पेशेवर व्यक्तियों की अनुमान आधारित आय की गणना के प्रावधान।
Unit IV-	Computation of taxable income from house property. Calculation of taxable income from business or profession. Provisions relating to calculation of income on estimated basis of small traders, contractors, Transporters and Professionals.
इकाई V-	पूँजी लाभ – अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्तियाँ एवं करयोग्य पूँजी लाभ-हानि की गणना। पूँजी लाभ से छूटें। अन्य साधनों से आय की गणना।
Unit V-	Capital gains – Calculation of taxable capital gain/loss on short term & long term capital assets. Exemption for capital gains. Computation of Income from other sources.

नोट- प्रश्न पत्र में 60 प्रतिशत संख्यात्मक एवं 40 प्रतिशत सैद्धान्तिक प्रश्न होंगे।

60% Numerical and 40% Theoretical Questions are required in Question Paper

26/02/2020

संत अलायसियस महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर (म.प्र.)
St. Aloysius' College (Autonomous), Jabalpur, M.P.

Class/ कक्षा	B.Com / बी.कॉम.
Year/ वर्ष	First/ प्रथम
Subject/ विषय	Tax procedure & Practice/ कर प्रक्रिया एवं व्यवहार
Paper/ प्रश्न पत्र	II
Title of the paper/ प्रश्न पत्र का शीर्षक	Goods and Service Tax / माल एवं सेवा कर
Compulsory/ अनिवार्य Optional/ वैकल्पिक	Optional/ वैकल्पिक
Maximum Marks : 40	अधिकतम अंक :40

Course Outcome:. Understand various provisions of GST law. The learner will be able compute GST for Traders and Suppliers.

■ **इकाई-I** : माल एवं सेवाकर का अर्थ एवं विशेषताएँ। माल एवं सेवाकर की पृष्ठभूमि, आवश्यकता एवं क्रियान्वयन। माल एवं सेवाकर के अनुकूल प्रभाव एवं कठिनाइयाँ। प्रमुख मर्दे एवं परिभाषाएँ – कारोबार, कारोबार के स्थान, संयुक्त प्रदाय, प्रतिफल, करमुक्त प्रदाय, माल, इनपुट माल एवं इनपुट सेवा, इनपुट टैक्स, सकल आवर्त, पूँजीगत माल, कर बीजक, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता एवं जमा खाता, आवक प्रदाय, जावक प्रदाय, व्यक्ति, प्रदायकर्ता, जॉबवर्क, रिवर्स चार्ज, प्राप्तिकर्ता आदि धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएँ। माल एवं सेवाकर का वर्गीकरण।

Meaning and features of goods and Service Tax (GST) Background, Necessity and implementation of GST. Favourable impacts and difficulties of GST. Important terms and definitions - Business, place of business, Composite supply, Goods, Input goods and Input service, Input tax, Exempt supply, Gross Turnover, Capital goods, Tax invoice, Electronic cash ledger, Electronic Credit Ledger, Inward Supply, Outward Supply, Person, Supplier, Jobwork, Reverse Charge, Recipient and other definitions under Sec. 2. Classification of Goods and Services Tax.

■ **इकाई-II** : वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रदाय का अर्थ एवं क्षेत्र, संयुक्त एवं मिश्रित प्रदायों पर कर दायित्व। कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण। माल एवं सेवाकर (GST) के अन्तर्गत पंजीयन। व्यक्ति जो पंजीयन के लिए दायी है, दायी नहीं है। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, पंजीयन के लिए प्रक्रिया, पंजीयन क्रमांक (GSTIN) का निर्गमन एवं उल्लेख, पंजीयन का संशोधन एवं रद्दकरण।

Meaning and scope of Supply / Tax Liability on composite and mixed supplies. Levy and Collection of Tax. Registration under GST. Persons Liable / not liable for registration. Compulsory registration; process for registration, Issue of Registration Number (GSTIN). Amendment and Cancellation of Registration.

■ **इकाई-III** : माल एवं सेवाकर के अन्तर्गत करमुक्त माल की सूची। माल एवं सेवाओं के प्रदाय का समय एवं स्थान, करयोग्य प्रदाय का मूल्य निर्धारण, व्यावहारिक समस्याएँ, कर बीजक तैयार करना – नियम एवं प्रारूप।

List of exempt goods under GST. Time and place of supply of goods and services Determination of value of Taxable supply. Practical problems, preparation of Tax invoice and rules and proforma.

■ **इकाई-IV** : कम्पोजिशन लेवी – कम्पोजिशन के पात्र व्यक्ति, कम्पोजिशन के विकल्प की सूचना, कम्पोजिशन की शर्तें एवं प्रतिबन्ध। कम्पोजिशन की दशा में कर की दरें एवं विवरणी सम्बन्धी नियम। कम्पोजिशन सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याएँ।

Composition Levy - Persons eligible to opt composition, intermation for composition option. Conditions and restriction for composition. Rate tax of the composition levy and rules regarding Return Practical Problems relating to composition levy.

■ **इकाई-V** : इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धी प्रावधान, नियम एवं प्रक्रिया। जॉब वर्क सम्बन्धी प्रावधान। करयोग्य माल एवं सेवाओं पर कर की दरों का वर्गीकरण एवं व्यावहारिक समस्याएँ।

Rules, Provisions and procedure for Input Tax Credit. Provisions regarding Job-work. Classification of taxable goods and Services at the basis of taxability (Basic).

टिप्पणी- परीक्षा प्रश्न पत्र में कम से कम 70% अंकों के गणनात्मक प्रश्न पूछे जायेंगे।

Atleast 70% of the total marks shall be asked in the form of numerical questions in exam

Recommended Books:

Shripal Saklecha & Anit Saklecha	Goods and Service Tax	Satish Printers and Publishers
श्रीपाल सकलेचा एवं अनित सकलेचा	माल एवं सेवा कर	Satish Printers and Publishers
H C Mehrotra	Goods and Service Tax	Sahitya Bhawan Publication
एच सी मेहरोत्रा	माल एवं सेवा कर	Sahitya Bhawan Publication
CA Anoop Modi & CA Mahesh Gupta	GST & Custom Law	SBPD Publication, Agra
सी ए अनूप मोदी एवं सी ए महेश गुप्ता	जी एस टी एवं कस्टम लॉ	SBPD Publication, Agra

Tax Practical: 50 marks